



**मध्यप्रदेश विधान सभा**  
**संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)**

**सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2015 (29 आषाढ, शक सम्वत् 1937)**  
**विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 36 बजे समवेत हुई.**  
**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

**1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान**

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

**2. शपथ**

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 227-गरोठ से, उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री चन्द्र सिंह सिसौदिया ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपना स्थान ग्रहण किया.

**3. निधन का उल्लेख**

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये: -

- (1) श्री दिलीप सिंह भूरिया, संसद सदस्य,
- (2) श्री राजेश यादव, सदस्य विधान सभा,
- (3) श्री तुकोजीराव पवार, सदस्य विधान सभा,
- (4) श्रीमती शीला कौल, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (5) श्री जानकी वल्लभ पटनायक, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (6) श्री गुफरान आजम, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (7) श्री हरनाम सिंह राठौर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (8) श्री ललित जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (9) श्री अकबर अली आरिफ, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (10) पंडित श्याम कार्तिक दुबे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (11) श्री चार्ल्स कोरिया, सुप्रसिद्ध वास्तुविद,
- (12) श्री मदन मोहन जोशी, सुप्रसिद्ध पत्रकार,
- (13) श्री महेश नीलकंठ बुच, मध्यप्रदेश के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी,
- (14) नेपाल एवं भारत में आए भूकंप में मृत व्यक्ति तथा
- (15) पन्ना जिले के पाण्डव फॉल के पास बस हादसे में मृत व्यक्ति.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री तथा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015 (30 आषाढ, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**भोपाल:**  
**दिनांक: 20 जुलाई, 2015**

**भगवानदेव ईसरानी,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**